

## प्रेस नोट दिनांक-27.03.2021

(1) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री अवधेश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव तथा उनकी टीम द्वारा कलवारा घाट से अभियुक्त लल्लू केवट पुत्र रामदयाल निवासी करवारा बुजुर्ग थाना पहाड़ी को अपने सोलानिका ट्रैक्टर DI 35 से अवैध खनन कर बालू चोरी करते हुये गिरफ्तार किया। मौके से अभियुक्त (2) शुभम पटेल पुत्र राजेश (3) राजेन्द्र पुत्र गुलजार निवासीगण पिपरोदा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट भाग गये। ट्रैक्टर को सीज किया गया तथा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 34/2021 धारा 379 भादवि0 व 4/21 खनिज अधिनियम व 03 लोक सम्पत्ति अधिनियम व 207 एमवी एक्ट पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

सोलानिका ट्रैक्टर DI 35 बालू लदा हुआ

### गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव थाना पहाड़ी
2. आरक्षी नरेन्द्र
3. आरक्षी पंकज

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री आनन्द मिश्रा व उनके हमराही द्वारा वारण्टी अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र रामसिया निवासी बनकट थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री आनन्द मिश्रा थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी रोहित

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में पुरस्कार घोषित इनामिया/हिस्ट्रीशीटर/टॉप-10 गैगेस्टर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा 10-10 हजार रुपये के इनामिया एवं गैगेस्टर एक्ट के वाँछित अभियुक्त (1) मुन्नी उर्फ दयाराम पुत्र मतगंजन यादव (2) गोली उर्फ राजाराम पुत्र मुन्नी उर्फ दयाराम निवासीगण चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी
2. आरक्षी मनीष यादव
3. मुख्य आरक्षी मधुसूदन पाठक
4. आरक्षी जलील अहमद
5. आरक्षी निशान्त भिलवार

(4). जनपद चित्रकूट पीआरवी 2046 थाना रैपुरा अंतर्गत दिनांक 27/03/2021 को समय 02:15 बजे इवेंट संख्या 0690 द्वारा घटनास्थल बोड़ी पुखरी थाना रैपुरा से कॉलर राहुल सिंह ( मोबाइल नंबर 7235005408 ) द्वारा सूचना दी गयी कि एक ट्रक दुकान के अंदर घुस गया है काफी लोग घायल है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक ट्रक mp17hh2754 अनियंत्रित होकर रोड के किनारे एक दुकान में घुस गया।जिससे दुकान में सो रहा एक व्यक्ति घायल हो गया और ट्रक में सवार दो लोग भी घायल हो गये है। सभी घायलो को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल सोनेपुर में भर्ती कराया गया है। घायलो के घरवालों को भी सूचना दी गई है। घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा को बताया गया था।

### पीआरवी स्टाफ:-

कमांडर - hc सुशील चंद्र निगम  
सब कमांडर - hc मोहम्मद इरशाद  
पायलट - hc बलबीर सिंह

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 27.03.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैण्ड, बाजार रोड, ग्राम अहिरी में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा रेलवे स्टेशन बरगढ़ में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा भरतकूप मंदिर में, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी एवं बन्धा भीतर ग्राम में भ्रमण कर छात्राओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बॉरें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। एंटी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बॉरें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया ।